



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023 (AGRAHAYANA 22, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

संख्या 9/16/2023-4का.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना सड़क 9/16/2023-4क II, दिनांक 5 अप्रैल, 2023 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग (समितियाँ), अधिसूचना सड़क 60/6/92-3क I, दिनांक 03 अगस्त 1995 में यथा परिनिश्चित वर्तमान सीमा के बीच पड़ने वाले तथा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पालिका, घरौंडा, जिला करनाल की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर:—बिंदु संख्या "ए" से आरंभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि गांव हसनपुर सड़क से आयत सड़क 2 का किला सड़क 2, 3 से पूर्व पथ की ओर बजीदा कैनाल को पार करके उत्तर सीमा के पथ पर बिंदु सड़क "बी" तक जोकि आयत सड़क 22 का किला संख्या 1 का उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु सड़क "बी" से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को पार करके दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ चलते हुए आयत सड़क 28 का किला सड़क 2 के उत्तर पश्चिम कोने तक तथा आयत सड़क 28 का किला सड़क 2 से उत्तर दिशा से पूर्व की ओर चलते हुए बसताडा सड़क को पार करके बिंदु सड़क "सी" तक जोकि आयत सड़क 24 के किला सड़क 24 का उत्तर पूर्व कोना है।

पूर्व:— बिंदु सड़क "सी" से आरंभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत सड़क 24 का किला संख्या 24 से नगरपालिका सीमा के पथ पर दक्षिण की ओर चलते हुए बिंदु सड़क "डी" तक जो कि आयत सड़क 99 का किला संख्या 13,18 है, ज्ञानपुरा रोड को पार करके दक्षिण की ओर चलते हुए गांव पनौडी रोड पार करके गांव जडौली सीमा के साथ-साथ बिंदु सड़क "ई" तक जोकि आयत सड़क 155 का किला संख्या 9 है, तब पूर्व की ओर चलते हुए बिंदु सड़क "एफ" जोकि आयत सड़क 184 का किला संख्या 12 से दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हुए बिंदु सड़क "जी" तक जोकि आयत सड़क 211 का किला नं० 13 का दक्षिण पूर्वी कोना है।

दक्षिण:—बिंदु सड़क "जी" से आरंभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत सड़क 211 का किला सड़क 13 है, पश्चिम की ओर गांव डिंगर माजरा की सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिंदु सड़क "एच" जोकि आयत सड़क 189 का किला संख्या 21 का पश्चिम कोना है। बिंदु सड़क "एच" से दक्षिण की तरफ चलते हुए, गांव डिंगर माजरा सड़क, सीमा के साथ-साथ बिंदु सड़क "आई" के कोने पर जोकि गांव डिंगर माजरा सड़क पार करके जिसका आयत सड़क 208 का किला संख्या 5 के कोने से गांव डिंगर माजरा सड़क के साथ -2 पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए जोकि आयत सड़क 191 का किला संख्या 16 के उत्तर पूर्वी तक और उसके उत्तर पूर्वी कोने से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए बिंदु सड़क "जे" तक जोकि नगरपालिका सीमा को छूते हुए आयत सड़क 206 का किला संख्या 15 व नगरपालिका सीमा के साथ चलते हुए गांव गढी मुल्तान सीमा के साथ बिंदु सड़क "के" जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को छूती है जिसका आयत सड़क 217 का किला संख्या

23 है। बिंदु सड़क "के" है से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को पार करते हुए बिंदु सड़क "एल" तक जोकि आयत सड़क 220 का किला सड़क 2 है बिंदु सड़क "एल" से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए बिंदु सड़क "एम" तक जोकि नगरपालिका सीमा को छूती है, जिसका आयत सड़क 216 का किला संख्या 2 हैं। बिंदु संख्या "एम" से पश्चिम दिशा की तरफ और नगरपालिका की सीमा के साथ साथ चलते हुए रेलवे लाईन को पार करके बिंदु सड़क "एन" तक जोकि आयत सड़क 201 का किला संख्या 11 है। बिंदु संख्या "एन" से पश्चिम दिशा व नगरपालिका सीमा के साथ साथ चलते हुए, Drain/नाला को पार करते हुए बिंदु "ओ" तक जोकि आयत सड़क 170 का किला संख्या 10, 11 है।

पश्चिम:- बिंदु सड़क "ओ" से आरंभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत सड़क 169 का किला सड़क 6 से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पथ पर चलते हुए गांव मलिकपुर सड़क को पार करके बिंदु सड़क "पी" तक बजीदा कैनल को पार करके गांव मलिकपुर सीमा के साथ साथ गांव रायपुर जटान सड़क को पार करते हुए बिंदु सड़क "क्यू" तक जोकि आयत सड़क 52 का किला सड़क 14, 15 का उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु सड़क "क्यू" से गांव फुरलक व गांव उपली सीमा के साथ पूर्व की ओर चलते हुए बिंदु संख्या "आर" तक नगरपालिका सीमा को आयत सड़क 55 का किला सड़क 16 के उत्तर पूर्व कोने को छूता है। बिंदु सड़क "आर" से नगरपालिका सीमा व गांव उपली सीमा के साथ उत्तर की ओर चलते हुए बिंदु सड़क "एस" तक जोकि आयत सड़क 33 का किला संख्या 4 के उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु सड़क "एस" से जोकि आयत सड़क 32 का किला सड़क 24 के दक्षिण पश्चिम कोने से गांव उपली सीमा के साथ उत्तर की ओर चलते हुए बिंदु सड़क "टी" जोकि आयत सड़क 8 का किला संख्या 12, 19 का कोना है। बिंदु सड़क "टी" से उत्तर पूर्व की तरफ गांव हसनपुर सीमा के साथ रेलवे लाईन को पार करते हुए बिंदु सड़क "ए" तक जोकि आरंभिक बिंदु है।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 13th December, 2023

No. 9/16/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 4 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/16/2023-4CII, dated the 5th April, 2023, the Governor of Haryana hereby includes the area lying between the existing boundary as defined in the Haryana Government, Local Government Department (Committees), notification No. 60/6/92-3CI, dated the 3rd August, 1995 and as specified in the Schedule given below within the limits of Municipal Committee, Gharaunda, district Karnal, namely:-

Schedule of Boundaries

North:- Starting from point no. "A" as shown in the map which is from village Hasanpur road Rectangle no. 2 Kila No. 2, 3 in East side crossing Bazida canal towards Northern boundary which is point no. "B" which is North west corner of Rectangle no 22 kila no. 1. Then from point "B" crossing National Highway-44 moving toward south along National Highway – 44 upto North West corner of Rectangle 28 kila no. 2 and from Rectangle 28 kila no. 2 moving towards Nort to East crossing Bastara road upto point "C" which is North East corner of rectangle no.24, Kila 24.

East:- Starting from the point "C" as shown in map, which is Kila No. 24 of Rectangle No. 24, moving in South direction on the Municipal boundary upto Point No. "D" which is Kila No. 13.18 of Rectangle No. 99, Crossing Gyanpura Road and moving towards south, crossing Panouri road along boundary of village Jaroli upto point "E" which is Kila no.09 of rectangle no.155 moving towards East upto point "F" which is kila no.12 of Rectangle no.184 moving Towards south East upto point "G" which is South East Corner of kila no.13 of Rectangle no.211.

South:- Starting from point "G" as shown in the map, which is Kila No. 13 of Rectangle No. 211, moving west along the boundary of village Dingar Majra upto point "H" which is west corner of Kila No. 21 Rectangle No. 189. From point "H" moving south along village Dingar Majra road boundary to the corner of point "I" crossing village Dingar Majra road whose rectangle number 208 to the corner of Kila no.5 moving along village Dinger Majra road in west direction which is North East corner kila no 16 rectangle no.191 and from north-east corner turning towards south upto point "J" touching the municipal boundary, kila no.15 rectangle No. 206 and moving along Municipal Boundary and along village boundary of Garhi Multan touching National Highway-44 which is point "K" whose Kila No. is 23 and rectangle no. 217. From point "K" Crossing the National Highway-44 upto point "L" which is kila no.2 rectangle

no. 220 from point "L" moving towards North West direction upto point "M" who touches municipal boundary whose Kila no. 2 rectangle no. 216. From point "M" moving towards West direction alongwith Municipal Boundary crossing Railway Line upto Point "N" which is Kila no.11 of rectangle no.201. From point "N" moving in West direction along Municipal Boundary, Crossing Drain/Nala upto point "O" which is Kila no 10,11 of rectangle no 170.

West:-Starting from point "O" as shown in the map which is kila no.6 rectangle No. 169 moving in the North West direction, crossing village Malikpur road upto point "P" crossing Bazida canal, along the boundary of village Malikpur, crossing village Raipur Jattan Road upto point "Q" which is north west corner of rectangle no.52 Kila no.14, 15. From point "Q" Moving in East direction towards boundary of village Phurlak and village Upali upto point "R" who touches north east corner of Kila no. 16 rectangle no.55. From point "R" moving along municipal boundary and village Upali Boundary in North direction Upto point "S" which is North west corner of Kila no. 4 of rectangle no. 33. From point "S" whose is Kila no. 24 of rectangle no. 32 from South West corner to moving along boundary of village Upali in Noth direction which is point "T" Whose corner of Kila no. 12, 19 of rectangle no. 8. From point "T" moving in north East direction towards Boundary of Village Hasanpur crossing Railway line upto point "A" Which is Starting Point.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.